

धोखेबाज़ों से सावधान!

पिछले कुछ वर्षों में कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामलों में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है और इसका बड़े पैमाने पर प्रसार हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इस समूह की कंपनियों की ओर से हमने एक विशेष प्रवृत्ति का अवलोकन किया है, जिसमें कुछ धोखेबाज़ व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहे भोले-भाले लोगों से संपर्क करते हैं, और फिर उन्हें हमारी समूह की कंपनियों में आकर्षक नौकरी का प्रस्ताव देते हैं। संभावित आवेदकों पर अपना भरोसा कायम करने के बाद, ये धोखेबाज़ उन्हें कंपनी में नियुक्ति दिलाने अथवा साक्षात्कार के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए एक निर्दिष्ट बैंक खाते में भुगतान करने के लिए कहते हैं।

इसकी कार्यप्रणाली निम्नानुसार है:

- पहली बार भुगतान के रूप में **बेहद कम राशि** की मांग की जाती है, ताकि आवेदकों को कोई खतरा महसूस नहीं हो और वह तुरंत इसका भुगतान कर सके।
- आवेदकों को अपने जाल में फंसाने के बाद, धोखेबाज़ उन्हें बताते हैं कि निर्धारित साक्षात्कार या नियुक्ति की तिथि बेहद करीब है और इसी आधार पर वे **धीरे-धीरे धनराशि बढ़ाते हैं**।
- ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं, जिसमें धोखेबाज़ों द्वारा आवेदकों को शुरुआती स्टार्ट-अप किट, जैसे कि लैपटॉप कंप्यूटर प्रदान करने के बहाने **बड़ी धनराशि की मांग की जाती है**।
- पैसों के अलावा, ये धोखेबाज़ कथित तौर पर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के बहाने आवेदकों की **व्यक्तिगत जानकारी भी हासिल करते हैं**। बाद में इस डेटा को बाजार में बेचा जाता है।

धोखेबाज़ों से सावधान करने वाली इस चेतावनी के माध्यम से, हम नौकरी की तलाश कर रहे सभी संभावित उम्मीदवारों को सतर्क करना चाहते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा इस समूह की कंपनियों द्वारा:

- नौकरी की पेशकश करने तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया के लिए, या फिर लैपटॉप / कंपनी की ड्रेस (वर्दी) प्रदान करने के लिए नौकरी की तलाश कर रहे किसी भी व्यक्ति से **पैसे अथवा जमा राशि की मांग नहीं की जाती है**।
- नौकरी अथवा किसी भी प्रकार के लाभ का प्रस्ताव देने या जारी करने के लिए, अपनी ओर से किसी भी एजेंट, एजेंसी या व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई है।

- व्हाट्सएप के माध्यम से मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सीवी जैसे व्यक्तिगत दस्तावेजों को साझा करने के लिए नहीं कहा जाता है।
- जीमेल, याहू, हॉटमेल, आउटलुक आदि जैसे व्यक्तिगत ई-मेल आईडी के माध्यम से किसी भी प्रकार का संवाद नहीं किया जाता है। नौकरी/ रोजगार से संबंधित सभी आधिकारिक संचार के लिए कंपनी के ई-मेल एड्रेस का उपयोग किया जाता है, जिसके अंत में “@ril.com” मौजूद होता है।

ऐसी किसी भी एजेंसी, रोजगार पोर्टल या व्यक्ति के साथ काम करने वाला कोई भी अभ्यर्थी पूरी तरह से अपने जोखिम पर ऐसा कर रहा है, तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी समूह की कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रक्रिया में होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

यदि आपको फर्जी नामांकन अथवा जालसाजी से नौकरी दिलाने से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी प्राप्त हो, तो हमारी कंपनी में धोखाधड़ी एवं दुर्व्यवहार जांच के प्रमुख को recruitment.fraud@ril.com के माध्यम से तुरंत सूचित करें, और ऐसा करना हमारे पारस्परिक हित के लिए बेहतर होगा।

पंजीकृत कार्यालय:

मेकर चैंबर्स IV

तीसरी मंजिल, 222, नरीमन प्वाइंट

मुंबई 400 021, भारत

CIN: L17110MH1973PLC019786

कॉर्पोरेट संचार

मेकर चैंबर्स IV

पहली मंजिल, नरीमन प्वाइंट

मुंबई 400 021, भारत

दूरभाष: (+91 22) 2278 5000

टेलीफैक्स: (+91 22) 2278 5185

वेबसाइट : www.ril.com